

प्रेस नोट दिनांक 27.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा अपने ही भाई के हत्यारोपी/वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु एवं वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपने ही भाई के हत्यारोपी/वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.05.2021 को वादी श्री अरविन्द सिंह पुत्र स्व० फूलसहाय निवासी कुसेली थाना चौबिया द्वारा थाना चौबिया पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 15.05.2021 को मेरे पुत्र घनश्याम उर्फ रामवचन व सुनील उर्फ श्यामवचन खेत पर पानी लगाने गये थे। जहाँ उनके बीच कुछ विवाद हुआ था। जिसमें मेरे पुत्र सुनील उर्फ श्यामवचन ने घनश्याम उर्फ रामवचन की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी की तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर मु०अ०सं० 62ध०2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित की गयी। गठित टीमों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी, इसी के क्रम आज दिनांक 27.05.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुसेली में दिनांक 15.05.2021 को हुई हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गंगापुरा चैराहे पर कही जाने की फिराक में खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त को गंगापुरा चैराहे से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 15.05.2021 को पैसे के लेनदेन को लेकर मेरा झगडा मेरे भाई (मृतक घनश्याम सिंह) के साथ हो गया था। जिसे मैंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस के डर से मौत का कारण बिजली का करंट लगना बताया था।

पंजीकृत अभियोग:-1.मु०अ०सं० 62/2021 धारा 302 भादवि, थाना चौबिया,इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्त:-*1.सुनील उर्फ श्यामवचन पुत्र अरविन्द सिंह निवासी कुसेली थाना चौबिया इटावा
पुलिस टीम:- उ०नि० श्री मुकेश कुमार सोलंकी प्रभारी थाना चौबिया, उ०नि० श्री लक्ष्मी नारायण, उ०नि० आशीष यादव, का० रेशमपाल, का० कुलदीप, का० आदेश कुमार।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा

